

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 281] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1979/आषाढ़ 20, 1901  
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 1979/ASADHA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

**वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सञ्चारिता मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**आवेष**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1979

**निर्धारित व्यापार नियंत्रण**

का. आ. 394 (अ)/सं. ई(सी)ओ. 1977/ए एम(122).—आयात तथा निर्यात  
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का  
प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आवेष, 1977 में और संशोधन  
करने के लिए निम्नलिखित आवेष का निर्माण करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आवेष में निर्यात (नियंत्रण) 35वां संशोधन आवेष, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

- (1) भाग “ख” अनुसूची-1 में क्रम सं. 70(10) के सामने वर्तमान प्रविष्टि और खुले सामान्य लाइसेंस-3 के कालम 2 की क्रम सं. 41 के सामने अनुरूप प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“भारत-नार्वे और भारत-फिनलैंड वस्त्र करार के अन्तर्गत आने वाले” ।

- (2) खुले सामान्य लाइसेंस-3 के कालम 4 की क्रम सं. 42 के सामने खर्चाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आबीस्त कटे के मक्दू” ।

[सं. 2/27/78-ईआई]

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 11th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

**S.O. 394(E)/No. E(C)O, 1977/AM(122).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-fifth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

- (i) In Part ‘B’ Schedule I, at the end of the existing entry against S. No. 70(x) and the corresponding entry in OGL-3, in Col. 2, against S. No. 41, the following shall be added :—

“Covered under Indo-Norway and Indo-Finland Textile Agreements”.

- (ii) In OGL-3, the existing entry appearing against S. No. 42, in Col. 4, shall be substituted by the following :—

“Against quota allotted by the Apparel Export Promotion Council or its authorised representatives, by endorsement on Shipping Bills”.

[No. 2/27/78/EI]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports